



# FIROZABAD POLICE



★ सुरक्षा आपकी ★  
★ संकल्प हमारा ★

**सराहनीय कार्य दिनांक 12-09-2022 थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद ।**

- **थाना रामगढ पुलिस व क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नकली नोट छाप कर बाजार में असली नोट के रूप में चलाकर बड़े स्तर का कारोबार करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड मौके से 3 अभियुक्त गिरफ्तार ।**
- **कब्जे से 53,900 (तिरेपन हजार नौ सौ रुपये ) नकली रुपये व नकली नोट बदलकर अर्जित किये गये असली नोट 58000 रुपये, नकली नोट छापने के उपकरण बरामद ।**
- नकली नोट छाप कर बाजार में असली नोट के रूप में चलाकर बड़े स्तर का कारोबार करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड ।
- गिरोह का सरंगना है अभियुक्त कमल प्रताप ।
- पूर्व में भी थाना हरिपर्वत जनपद आगरा से उक्त अपराध में जा चुका है जेल ।
- अगर समय रहते अभियुक्तों को गिरफ्तार ना किया होता तो नकल नोटों को बाजार में असली में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को करते रहते नुकसान ।

जनपद फिरोजाबाद में गोपनीय रूप से नकली नोट छाप कर बाजार में असली नोट के रूप में चलाने की सूचनायें मिल रही थी । सूचना पर संज्ञान लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा नकली नोट छाप कर बाजार में असली नोट के रूप में चलाने वाले अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुये SOG/सर्विलांस टीम/ थाना रामगढ पुलिस को टीम गठित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये थे, जिसके क्रम में SOG/सर्विलांस टीम/ थाना रामगढ पुलिस अपराधियों की सुरागरसी पतारसी कर रही थी । दिनांक 12.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में उक्त टीम अपराधियों की पतारसी सुरागरसी में मामूर थी कि तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जगजीवन नगर में अपने घर में नकली नोट छाप कर बाजार में असली नोट के रूप में चलाकर पैसा कमाने का कार्य कर रहे हैं । नकली नोट छापने के उपकरण भी उन लोगों के पास है यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं । उक्त सूचना पर गठित टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 12.09.2022 को समय 07.40 बजे जगजीवन नगर थाना रामगढ से दबिश देकर मकान के कमरे में तीन व्यक्तियों को नकली नोट छापते व तैयार करते हुए पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से ₹ 53900 (तिरेपन हजार नौ सौ ) नकली रुपये व नकली नोट छापने के उपकरण बरामद हुये हैं । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामगढ पर मु0अ0सं0 488/22 धारा 489A/489B/489C/489D भादवि भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण:-** पकड़े गये अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया हम तीनों लोग मिलकर यह काम करते हैं कमल प्रताप नकली नोट छापता है और हम सभी लोग नकली करेन्सी को ठेला ढकेल , शराब के ठेका एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों पर यह नोट एक-एक करके चला देते हैं । हम लोगों का नकली नोटों का छापने का गिरोह है इसी से हम लोग धन अर्जित करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और अपने भौतिक सुख साधनों में खर्च करते हैं तथा हम लोगो की जो आय होती है उस पर हम लोगो का बराबर बराबर का हिस्सा रहता है ।

### नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त -

1. कमल प्रताप पुत्र रमेशचन्द्र निवासी जगजीवन नगर सैलई थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद ।
2. रामवीर पुत्र राजबहादुर निवासी राजा का ताल थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।
3. कुलवेन्द्र उर्फ कुल्लू उर्फ विकास पुत्र विनोद कुमार निवासी सिकेरा थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद ।

### पंजीकृत अभियोग:-

- 1- मु0अ0सं0 488/22 धारा 489A/489B/489C/489D भादवि थाना रामगढ फिरोजाबाद ।

### आपराधिक इतिहास कमल प्रताप:-

- 1- मु0अ0सं0 459/20 धारा 302/506 भादवि थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 43/22 धारा 420/467/471/489A/489B/489C/489D/489E भादवि हरिपर्वत जनपद आगरा ।

### बरामदगी:-

- 1- रू0 53900 (तिरेपन हजार नौ सौ ) नकली रुपये
- 2- 71 पेपर जिसके एक तरफ 2 हजार के नोट के दो -दो प्रिन्ट छपे है
- 3- एक अदद प्रिन्टर HP INK TANK 316
- 4- 9130 रुपये असली नोट
- 5-नकली नोट चलाकर अर्जित किये गये असली नोट 58000 रुपये बरामद
- 6- नोट पर लगने वाली महात्मा गाँधी की मुहर
- 7- सफेद स्याही की रिफिल (पेन)
- 8- फेवी गम की प्लास्टिक सीसी
- 9- एक अदद कैची
- 10- हरे व सफेद रंग का सैलो टेप
- 11- कागज काटने ( नोट) ब्लेट कटर
- 12- एक ब्लेड की डिब्बी व एक स्केल (लोहे की)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक हरवेन्द्र कुमार मिश्रा थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
2. निरीक्षक रवि त्यागी प्रभारी एसओजी टीम फिरोजाबाद ।
3. निरीक्षक अपराध रामप्रवेश सिंह थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
4. उ0नि0 श्री उमेश सिंह थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
5. उ0नि0 नितिन त्यागी प्रभारी सर्विलासं टीम फिरोजाबाद ।

थाना रामगढ पुलिस टीम--का0 272 अनुज त्यागी,का0 716 अंकित.का0 1300 अमित कुमार,का0 519 नाहर सिंह थाना रामगढ फिरोजाबाद ।

सर्विलासं+एसओजी टीम -- मुख्य आरक्षी प्रशान्त कुमार,मुख्य आरक्षी अमित चौहान,मुख्य आरक्षी करनवीर सिंह,आरक्षी अमित उपाध्याय,आरक्षी रघुराज सिंह,आरक्षी देवेन्द्र कुमार,आरक्षी कृष्ण कुमार,मु0आ0 जय नारायण ,का0 लोकेश गौतम,आरक्षी विजय कुमार,,आरक्षी प्रेम कुमार,आरक्षी योगेश कुमार,का0 उग्रसेन सिंह,का0 सन्दीप कुमार,चा0 रमाकान्त ।